

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 अप्रैल 2023—वैशाख 1, शक 1945

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, समाहांत बुधवार, दिनांक 14-12-2022

1. **मौसम एवं वर्षा.**— राज्य में मौसम सामान्य रहा वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

क्र.	जिला	तहसील				
		1. मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक	17.5 मि.मी. से 34.9 मि.मी. तक	35.0 मि.मी. से 53.1 मि.मी. तक	53.2 मि.मी. से 249.9 मि.मी. तक	250.0 मि.मी. से अधिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	रायपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2.	बलौदाबाजार	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3.	गरियाबंद	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
4.	महासमुन्द	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5.	धमतरी	धमतरी, मगरलोड	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
6.	दुर्ग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	बेमेतरा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
8.	बालोद	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
9.	राजनांदगांव	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
10.	कबीरधाम	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
11.	बस्तर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
12.	कोण्डागांव	कोण्डागांव	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
13.	नारायणपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
14.	कांकेर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
15.	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा, गीदम, कुआकोण्डा, कटेकल्याण, बारसूर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
16.	सुकमा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
17.	बीजापुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
18.	बिलासपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
19.	मुंगेली	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
20.	गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
21.	जांजगीर-चांपा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
22.	कोरबा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
23.	सरगुजा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
24.	सूरजपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
25.	बलरामपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
26.	कोरिया	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
27.	रायगढ़	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
28.	जशपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

2. **जुताई, बोनी एवं रोपाई .—** रबी फसल हेतु जुताई व बोनी का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है।
3. **सिंचाई .—** बेमेतरा, सूरजपुर में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है।
4. **कटाई .—** जिला बालोद, राजनांदगांव, बस्तर में कटाई का कार्य पूर्ण एवं अन्य जिलों में कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है।
5. **फसल स्थिति .—** जिला रायपुर, गरियाबंद, महासमुन्द, दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव, बस्तर, बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, जांजगीर-चाम्पा व कोरबा में फसल की हालत सामान्य है। जिला रायपुर में फसल की हालत सुधरी है। जिला धमतरी में धान, मक्का, तुअर, उड़द, कुल्थी व कोदो-कुटकी की हालत सामान्य है। जिला कांकेर में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी, अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, रामतिल, सूर्यमुखी, मूंगफली, अरण्डी व अन्य फसल की हालत सामान्य है। जिला दंतेवाड़ा में धान, मक्का, कोदो-कुटकी, मड़िया, सावां, मूंगफली, तिल, ज्वार, अम्बाडी, सन, तुअर, उड़द, मूंगमोठ व कुल्थी फसल की हालत सामान्य है। जिला नारायणपुर में धान, कोदो-कुटकी, रागी, तिल, रामतिल, अरहर, उड़द, कुल्थी एवं अन्य फसल की हालत सामान्य है। जिला सुकमा में धान व मक्का फसल की हालत सामान्य है। जिला सरगुजा में धान, मक्का, उड़द अरहर व अन्य फसल की हालत सामान्य है। जिला सूरजपुर में धान, मक्का, अरहर, उड़द, मूंगफली फसल की हालत सामान्य है। जिला बलरामपुर में धान, मक्का, मूंगफली, अरहर व उड़द फसल की हालत सामान्य है। जिला कोरिया में धान, अरहर, उड़द, कोदो-कुटकी, तिल, रामतिल, गेहूँ, राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर व लाख-तिवड़ा फसल की हालत सामान्य है। जिला रायगढ़ में धान, गन्ना, मूंगफली, मूंग, उड़द, तुअर, तिल, अम्बाडी व कुल्थी फसल की हालत सुधरी है। जिला जशपुर में धान व तुअर फसल की हालत सामान्य है।
6. **पशु-स्थिति .—** सभी जिलों में पशु स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है।
7. **चारा .—** सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।
8. **बीज प्राप्ति .—** सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।
9. **खेतीहर श्रमिक .—** खेतीहर श्रमिक सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 14-12-2022

जिला/तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि.मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-रायपुर</b>	मिलीमीटर				
1. रायपुर	..	2. रबी फसल की जुताई का कार्य जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. आरंग	..		4. (1) फसल की हालत सुधरी है, एवं धान की कटाई का कार्य जारी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. अभनपुर	..		(2) ..		
4. गोबरानवापारा	..				
5. तिल्दा	..				
6. खरोरा	..				
<b>जिला-बलौदा-बाजार-भाटापारा</b>	मिलीमीटर				
1. बलौदाबाजार	..	2. रबी फसल की जुताई एवं बोनी का कार्य जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पलारी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. लवन	..		(2) ..		
4. भाटापारा	..				
5. सिमगा	..				
6. बिलाईगढ़	..				
7. कसडोल	..				
<b>जिला-गरियाबंद बिन्द्रानवागढ़</b>	मिलीमीटर				
1. गरियाबंद	..	2. रबी फसल की जुताई एवं बोनी का कार्य जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. राजिम	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. छुरा	..		(2) ..		
4. मैनपुर	..				
5. देवभोग	..				
<b>जिला-महासमुन्द</b>	मिलीमीटर				
1. महासमुन्द	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
2. पिथौरा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बागबाहरा	..		(2) ..		
4. सरायपाली	..				
5. बसना	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-धमतरी</b>	मिलीमीटर				
1. धमतरी	0.8	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुरुद	. .		4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, कुल्थी व कोदो-कुटकी फसल की हालत सामान्य है एवं धान फसल की कटाई का कार्य जारी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मगरलोड	. .		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य हैं.		
4. नगरी	. .				
5. भखारा	. .				
6. कुकरेल	. .				
<b>जिला-दुर्ग</b>	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	. .	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. धमधा	. .		4. (1) फसल की हालत सामान्य है, कटाई का कार्य जारी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. पाटन	. .		(2) . .		
<b>जिला-बेमेतरा</b>	मिलीमीटर				
1. थानखम्हरिया	. .	2. रबी फसल की जुताई का कार्य जारी है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. साजा	. .		4. (1) फसल की हालत सामान्य है. कटाई का कार्य जारी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बेरला	. .		(2) . .		
4. बेमेतरा	. .				
5. नवागढ़	. .				
<b>जिला-बालोद</b>	मिलीमीटर				
1. बालोद	. .	2 रबी फसल बोनी का कार्य जारी है	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गुरुर	. .		4. (1) धान की कटाई का कार्य जारी है	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. गुण्डरदेही	. .		(2) . .		
4. डौण्डी	. .				
5. डौण्डीलोहारा	. .				
6. अर्जुन्दा	. .				
<b>जिला-राजनांदगांव</b>	मिलीमीटर				
1. छुईखदान	. .	2. रबी फसल की बोनी का कार्य जारी है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. खैरागढ़	. .		4. (1) फसल की हालत सामान्य है एवं धान कटाई का कार्य पूर्ण.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. डोंगरगढ़	. .		(2) . .		
4. राजनांदगांव	. .				
5. छुरिया	. .				
6. डोंगरगांव	. .				
7. अं. चौकी	. .				
8. मोहला	. .				
9. मानपुर	. .				
10. गण्डई	. .				
<b>जिला-कवर्धा- कबीरधाम</b>	मिलीमीटर				
1. कवर्धा	. .	2. रबी फसल हेतु जुताई एवं बोनी का कार्य जारी है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बोड़ला	. .		4. (1) धान कटाई प्रगति पर है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा	. .	खड़ी फसल पर छुटपुट कीट प्रकोप है.	(2) . .		
4. पंडरिया	. .				
5. रेंगाखारकला	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-बस्तर</b>					
1. जगदलपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बस्तर	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है. धान की कटाई का कार्य जारी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बकावण्ड	..				
4. लोहण्डीगुड़ा	..		(2) ..		
5. बास्तानार	..				
6. तोकापाल	..				
7. दरभा	..				
<b>जिला-कोण्डागांव</b>	मिलीमीटर				
1. कोण्डागांव	4.2	2. रबी फसल की जुताई एवं बोनी का कार्य जारी है.	3. ..	5. ..	7. ..
2. माकड़ी	..		4. (1) कुल्थी फसल की कटाई का कार्य जारी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. फरसगांव	..		(2) ..		
4. केशकाल	..				
5. बड़ेराजपुर	..				
<b>जिला-नारायणपुर</b>	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	..	2. खरीफ फसल हेतु जुताई, बोनी एवं रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. ओरछा	..		4. (1) धान, कोदो-कुटकी, रागी, तिल, रामतिल अरहर, उड़द, कुल्थी, व अन्य फसल की हालत सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
<b>जिला-कांकेर- उत्तर बस्तर</b>	मिलीमीटर				
1. कांकेर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. भानुप्रतापपुर	..		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो- कुटकी, रागी, अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, रामतिल, सूर्यमुखी, मूंगफली, अरण्डी व अन्य फसल की हालत सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. दुर्गकोन्दल	..				
4. चारामा	..				
5. अन्तागढ़	..				
6. पखांजूर	..				
7. नरहरपुर	..				
<b>जिला-दंतेवाड़ा- दक्षिण बस्तर</b>	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	0.2	2. खरीफ फसल हेतु जुताई, बोनी एवं रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गीदम	0.6		4. (1) धान, मक्का, कोदो-कुटकी, मड़िया, सावां, मूंगफली, तिल, ज्वार, अम्बाड़ी, सन, तुअर, उड़द, मूंगमोठ व कुल्थी फसल की हालत सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कुआकोण्डा	0.6				
4. कटेकल्याण	4.1				
5. बड़ेबचेली	..				
6. बारसूर	0.7				
<b>जिला-सुकमा</b>	मिलीमीटर				
1. सुकमा	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. छिन्दगढ़	..		4. (1) धान व मक्का फसल की हालत सामान्य हैं एवं धान फसल की कटाई का कार्य जारी है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कोन्टा	..				
4. गादीरास	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-बीजापुर</b>	मिलीमीटर				
1. बीजापुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गंगालूर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. भैरमगढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. कुटूरु	..				
5. भोपालपटनम्	..				
6. उसूर	..				
<b>जिला-बिलासपुर</b>	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	..	2. रबी फसल हेतु जुताई व	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बिल्हा	..	बोनी का कार्य जारी है.	4. (1) फसल की हालत सामान्य है. धान	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मस्तूरी	..		फसल की कटाई का कार्य जारी है.	चारा पर्याप्त.	
4. कोटा	..		(2) ..		
5. तखतपुर	..				
6. सीपत	..				
7. बोदरी	..				
8. बेलगहना	..				
9. सकरी	..				
10. रतनपुर	..				
<b>जिला-गौरेला</b>	मिलीमीटर				
<b>पेण्ड्रा-मरवाही</b>					
1. पेण्ड्रा रोड	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पेण्ड्रा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मरवाही	..		कटाई का कार्य जारी है.	चारा पर्याप्त.	
4. सकोला	..		(2) ..		
<b>जिला-मुंगेली</b>	मिलीमीटर				
1. मुंगेली	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पथरिया	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. लोरमी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. लालपुर	..				
<b>जिला-जांजगीर-</b>	मिलीमीटर				
<b>चाम्पा</b>					
1. जांजगीर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. अकलतरा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है एवं	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बलौदा	..		धान फसल की कटाई का कार्य	चारा पर्याप्त.	
4. नवागढ़	..		जारी है.		
5. पामगढ़	..		(2) ..		
6. चाम्पा	..				
7. सक्ती	..				
8. जैजैपुर	..				
9. मालखरौदा	..				
10. डभरा	..				
11. शिवरीनारायण	..				
12. बम्हनीडीह	..				
13. सारागांव	..				
14. नया बाराद्वार	..				
15. अड़भार	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-कोरबा</b>	मिलीमीटर				
1. कोरबा	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है. कटाई का कार्य प्रगति पर है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	..		(2) ..		
4. दर्दी	..				
5. पाली	..				
6. हरदीबाजार	..				
7. पोड़ीउपरोड़ा	..				
<b>जिला-सरगुजा</b>	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. दरिमा	..		4. (1) धान, मक्का, अरहर, उड़द, फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. लुण्डा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. लखनपुर	..				
5. उदयपुर	..				
6. सीतापुर	..				
7. बतौली	..				
8. मैनपाट	..				
<b>जिला-सूरजपुर</b>	मिलीमीटर				
1. सूरजपुर	..	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. भैयाथान	..		4. (1) धान, मक्का, अरहर, उड़द व मूंगफली की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. रामानुजनगर	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. प्रेमनगर	..				
5. प्रतापपुर	..				
6. ओड़गी	..				
7. लटोरी	..				
8. बिहारपुर	..				
<b>जिला-बलरामपुर- रामानुजगंज</b>	मिलीमीटर				
1. बलरामपुर	..	2. खड़ी फसल पर कहीं कहीं रोग व कीड़ों की शिकायत है, उपचार जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. रामचन्द्रपुर	..		4. (1) धान, मक्का, मूंगफली, उड़द व अरहर फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. वाड्फनगर	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. राजपुर	..				
5. शंकरगढ़	..				
6. कुसमी	..				
<b>जिला-कोरिया- बैकुंठपुर</b>	मिलीमीटर				
1. बैकुंठपुर	..	2. खरीफ फसल हेतु बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. सोनहत	..		4. (1) धान, अरहर, उड़द, कोदो- कुटकी, तिल, रामतिल, गेहूँ, राई, सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर व लाख- तिवड़ा फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. खड़गावां	..				
5. चिरमिरी	..				
6. भरतपुर.	..				
7. केलहारी	..				



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-रायगढ़</b>	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	..	2. खरीफ फसल हेतु जुताई,	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पुसौर	..	बोनी व रोपाई का कार्य	4. (1) गन्ना, धान, मूंगफली, मूंग, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	..	जारी है.	तुअर, तिल, कुल्थी व अम्बाड़ी	चारा पर्याप्त.	
4. सारंगढ़	..		फसल की हालत सुधरी हैं.		
5. बरमकेला	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी है.		
6. घरघोड़ा	..				
7. तमनार	..				
8. लैलूंगा	..				
9. धरमजयगढ़	..				
10. सरिया	..				
11. छाल	..				
<b>जिला-जशपुर</b>	मिलीमीटर				
1. जशपुर	..	2. खरीफ फसल हेतु बोनी व	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मनोरा	..	रोपाई का कार्य पूर्ण.	4. (1) धान व तुअर फसल सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कुनकुरी	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. दुलदुला	..				
5. फरसाबहार	..				
6. बगीचा	..				
7. कांसाबेल	..				
8. पत्थलगॉव	..				
9. सन्ना	..				

पी. आर. प्रधान,

उप-आयुक्त, (सां) वास्ते-संचालक,

भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.